



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1936 (श०)
(सं० पटना 908) पटना, मंगलवार, 11 नवम्बर 2014

परिवहन विभाग

अधिसूचना

7 नवम्बर 2014

सं० स्था०-42/94 परि०-6067—मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (एक्ट नम्बर-59 ऑफ 1988) की धारा-68 की उप-धारा (1) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (2) की द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल इससे संबद्ध अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 द्वारा या उसके अधीन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को प्रदत्त शक्तियों का यथा विहित प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करने के लिए अनुसूची के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अगले आदेश तक के लिए नियुक्त करते हैं।

2. वे अनुसूची के स्तम्भ-3 में अंकित अपने-अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगे -

क्रम सं.	प्राधिकार का नाम	क्षेत्र और मुख्यालय	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष/सचिव एवं सदस्यगण
1	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना	सम्पूर्ण पटना प्रमंडल मुख्यालय	1. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना- अध्यक्ष 2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव 3. श्री बिपिन कुमार सिंह-गैर सरकारी सदस्य, पिता- श्री शिवनंदन सिंह, 403-D, शिवम् हैरिटेज, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पटना-14
2	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया	सम्पूर्ण मगध प्रमंडल मुख्यालय	1. प्रमंडलीय आयुक्त, मगध- अध्यक्ष 2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव 3. श्रीमती ज्योति देवी, माननीय विधान सभा सदस्या, बाराचट्टी, गया -गैर सरकारी सदस्य

क्रम सं.	प्राधिकार का नाम	क्षेत्र और मुख्यालय	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष/सचिव एवं सदस्यगण
3	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर	सम्पूर्ण तिरहुत प्रमंडल मुख्यालय	1. प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत- अध्यक्ष 2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव 3. श्री डा० कृष्ण कुमार सिंह -गैर सरकारी सदस्य, पिता- श्री रामसुन्दर प्रसाद, ग्रा०+पो०- भिखनपुर, थाना- अहियापुर, मुजफ्फरपुर
4	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर	सम्पूर्ण भागलपुर प्रमंडल मुख्यालय	1. प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर- अध्यक्ष 2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव 3. श्री मुरलीधर जोशी -गैर सरकारी सदस्य, पिता- श्री जगदीश दास, मो०- मुंडीचक, जी.वी.लेन, भागलपुर ।
5	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा	सम्पूर्ण कोशी प्रमंडल मुख्यालय	1. प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी- अध्यक्ष 2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव 3. श्री अमरेन्द्र सिंह चन्द्रवंशी-गैर सरकारी सदस्य, पिता- स्व. कामेश्वर सिंह, ग्राम- गंगापुर, भरसोटोला, पंचायत- गंगापुर, पो०- सोनामुखी, प्रखंड- आलमनगर, जिला- मधेपुरा ।
6	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियाँ	सम्पूर्ण पूर्णियाँ प्रमंडल मुख्यालय	1. प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ- अध्यक्ष 2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव 3. श्री अमोद कुमार-गैर सरकारी सदस्य, पिता- श्री बलवीर प्रसाद मंडल, पता- मिशन रोड, कालीबाड़ी भट्टा बाजार, पूर्णियाँ ।
7	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा	सम्पूर्ण दरभंगा प्रमंडल मुख्यालय	1. प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा- अध्यक्ष 2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव 3. श्री बलदेव राम -गैर सरकारी सदस्य, पिता- स्व. तुलसी राम, ग्राम-गड़िया,पो०- तारा मोहनपुर, थाना-सदर, जिला- दरभंगा ।
8	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण	सम्पूर्ण सारण प्रमंडल मुख्यालय	1. प्रमंडलीय आयुक्त, सारण- अध्यक्ष 2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव 3. श्री दुर्गा राम-गैर सरकारी सदस्य, पिता- धानाराम, ग्राम+पो०- चैनपुर, जिला-सिवान
9	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर	सम्पूर्ण मुंगेर प्रमंडल मुख्यालय	1. प्रमंडलीय आयुक्त, मगध- अध्यक्ष 2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव 3. श्री ब्रज किशोर कुमार-गैर सरकारी सदस्य, पिता- स्व. भागीरथ प्रसाद सिंह, ग्राम+पो०- बड़हिया, वार्ड नं.-1(महिला कॉलेज के पास), जिला- लखीसराय

3. (क) बिहार मोटर वाहन नियमावली के नियम 66 एवं 67 में प्रावधानित विहित प्रक्रियानुसार प्राधिकार द्वारा कार्य सम्पादन किया जायेगा ।

(ख) प्राधिकार की सभी बैठकों के लिए अनिवार्य होगा कि प्राधिकार के अध्यक्ष/ सदस्य द्वारा किस मामले में क्या कहा गया, उसका शब्दशः उल्लेख बैठक की कार्यवाही में किया जायेगा ।

(ग) परमिट के लिए जो भी आवेदन नियमानुकूल हों तथा आवश्यक शर्तों को पूर्ण करते हों उन्हें आवेदन प्राप्ति के बाद आयोजित प्रथम बैठक में निश्चित रूप से निष्पादित किया जायेगा तथा निष्पादन के आधार/कारणों का स्वतः स्पष्ट आदेश दिया जायेगा ।

(घ) बैठक की कार्यवाही अगले दिन निर्गत की जायेगी तथा बैठक में हुए निर्णय को अविलम्ब लागू कर दिया जायेगा ।

4. सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों से अपेक्षा की जायेगी कि वे आम जनता की सुविधा को देखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवहन परमिट सभी नियमों का पालन कर तत्परता से स्वीकृत करायेंगे ।

5. पूर्व निर्गत सभी अधिसूचना/ आदेश इस हद तक अवक्रमित किये जाते हैं ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 908-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>